

संचालनालय संस्थागत वित्त
इंद्रावती भवन, ब्लॉक-1, 4th फ्लोर, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0771-2510840, फैक्स क्र. 0771-2510841

क्रमांक 178 / संसंवि / Bank Emp. / 2014
प्रति,

रायपुर, दिनांक 24/03/2014

संयोजक एवं उप महाप्रबंधक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
भारतीय स्टेट बैंक,
आंचलिक कार्यालय, बैरन बाजार,
रायपुर (छ.ग.)


विषय :- इम्पेनलमेंट्स ऑफ बैंक्स- स्कोर कार्ड 2014-15।

- :: -

राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्डलों की अतिरिक्त राशि बैंकों में जमा करने के लिए पात्र बैंकों की सूची बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा बैंकों की उपलब्धियों के आंकलन के लिए संशोधित निर्धारित मापदंड अनुसार स्कोर-कार्ड 2014-15 तैयार किया गया है। जो इस संचालनालय की वेब-साईट <http://cgdif.nic.in> पर उपलब्ध है।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में समस्त बैंकों को सूचित करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि इस स्कोर कार्ड के क्र. A से G तक के आंकड़े कृपया शीघ्र इस संचालनालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।


(नारायण) 24/03/14
संचालक



Directorate of Institutional Finance
Finance Department
Government of Chhattisgarh

Score Card

(Effective from empanelment for the year 2014-15)

No.	Title / Range	Score	Remarks
A.	CD Ratio		
	Below 20%	0	Only those banks which have advances of minimum Rs.10 crore will be considered for empanelment. <i>Position as on 31st December 2013.</i>
	Between 20% to 29.99%	10	
	Between 30% to 39.99%	15	
	Between 40% to 49.99%	20	
	Between 50% to 59.99%	25	
	Between 60% to 69.99%	30	
	Between 70% to 79.99%	35	
	Equal & above 80%	40	
B.	Priority Sector Advances		
	Below 15%	0	<i>Position as on 31st December 2013.</i>
	Between 15% to 19.99%	5	
	Between 20% to 24.99%	10	
	Between 25% to 29.99%	15	
	Between 30% to 34.99%	20	
	Between 35% to 39.99%	25	
	Between 40% to 44.99%	30	
	Between 45% to 49.99%	35	
	Above 50%	40	
C.	Rural Branch Network		
	Nil	0	<i>Position as on 31st December 2013.</i> Only those banks which have at least one branch in rural area of the state will be considered for empanelment.
	Between 0.1% to 39.99%	10	
	Between 40% to 49.99%	20	
	Between 50% to 59.99%	30	
	Equal & above 60%	40	
D.	KCC distribution		
	Below 500	0	<i>During the financial year 2013 - 2014 upto December 2013.</i>
	Between 500 to 2000	5	
	Between 2001 to 3500	10	
	Between 3501 to 5000	15	
	Between 5001 to 6500	20	
	Between 6501 to 8000	25	
	Between 8001 to 9500	30	
	Between 9501 to 11000	35	
	Above 11000	40	

Handwritten signature



Directorate of Institutional Finance
Finance Department
Government of Chhattisgarh

No.	Title / Range	Score	Remarks
E.	Advance Under SHGs Bank Linkage		
	Below 1 Lakh	0	During the financial year 2013-2014 upto December 2013.
	Between 1 Lakh to 69.99 Lakh	5	
	Between 70 Lakh to 139.99 Lakh	10	
	Between 140 Lakh to 209.99 Lakh	15	
	Between 210 Lakh to 279.99 Lakh	20	
	Between 280 Lakh to 349.99 Lakh	25	
	Between 350 Lakh to 419.99 Lakh	30	
	Between 420 Lakh to 489.99 Lakh	35	
	Equal & above 490 Lakh	40	
F.	Financial Inclusion		
	Equal 50%	0	Performance of the bank will be measured against the target allotted under Financial Inclusion.
	Between 50% to 64.99%	10	
	Between 65% to 79.99%	20	
	Between 80 % to 89.99%	30	
	Between 90% to 99.99%	40	
G.	Education Loan under MMUSRBAY - Achievement - upto Dec. 2013 against target allocated by SLBC vide letter dated 26.07.2103		
	Below 50%	0	
	Between 50% to 60%	5	
	Between 61% to 70%	10	
	Between 71% to 80%	15	
	Between 81% to 90%	20	
	Between 91% to 100%	25	
H.	Delayed Submission / Non-Submission of PETS - MIS Data		
	A. - 2 points to be reduced for each month of delayed submission. B. - 5 points to be reduced for each month of non- submission . Note : Applicable only to banks empanelled for 2013-14.		

Selection Criteria = 50 percentile of aggregate marks